

NOTICE INVITING QUOTATION (NIQ)

SUBJECT "SEALED QUOTATION IS INVITED FOR "AUDIT OF ACCOUNTS AND SUBMISSION OF ITR, A.Y. 2026-2027, GST AUDIT & SUBMISSION GSTR-9 AND GSTR-9C F.Y. 2025-2026 FOR NATIONAL INSTITUTE OF AVIATION MANAGEMENT AND RESEARCH SOCIETY (INDIAN AVIATION ACADEMY) HAVING GSTIN 07AABAN1657L1ZE (DELHI)/ PAN AABAN1657L (DELHI)"

1. QUOTATIONS ARE INVITED IN A SEALED COVER BY THE AGM FINANCE ON BEHALF OF THE DIRECTOR, NATIONAL INSTITUTE OF AVIATION MANAGEMENT AND RESEARCH SOCIETY (INDIAN AVIATION ACADEMY), FROM A DELHI BASED CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM FOR "AUDIT OF ACCOUNTS AND SUBMISSION OF ITR, A.Y. 2026-2027, GST AUDIT & SUBMISSION GSTR-9 AND GSTR-9C F.Y. 2025-2026 FOR NATIONAL INSTITUTE OF AVIATION MANAGEMENT AND RESEARCH SOCIETY (INDIAN AVIATION ACADEMY) HAVING GSTIN 07AABAN1657L1ZE (DELHI)/ PAN AABAN1657L (DELHI)"

2. **THE QUOTATION MUST CLEARLY INDICATE** "QUOTATION FOR AUDIT OF ACCOUNTS AND SUBMISSION OF ITR, A.Y. 2026-2027, GST AUDIT & SUBMISSION GSTR-9 AND GSTR-9C F.Y. 2025-2026 FOR NATIONAL INSTITUTE OF AVIATION MANAGEMENT AND RESEARCH SOCIETY (INDIAN AVIATION ACADEMY) HAVING GSTIN 07AABAN1657L1ZE (DELHI)/ PAN AABAN1657L (DELHI)" & **NAME AND ADDRESS OF THE FIRM ON THE FACE OF THE ENVELOPE**

3. **THE QUOTATION, ADDRESSED** TO INDIAN AVIATION ACADEMY, NATIONAL INSTITUTE OF AVIATION MANAGEMENT AND RESEARCH SOCIETY(NIAMAR), NIAMAR SOCIETY CAMPUS, BEHIND SPINAL INJURY CENTRE NEAR BASANT KUNJ, NAGAL DEWAT ROAD NEW DELHI-110070. MAY BE DROPPED IN THE QUOTATION BOX KEPT IN RECEPTION. **UP TO 1500 HOURS BY 03.08.2026.**

4. THE QUOTATION SUBMITTED AS UNDER: - THE QUOTATION MUST INDICATE "ENVELOPE 'A', ENVELOPE 'B' AND 'MASTER ENVELOPE'

SEALED ENVELOPE 'A': TECHNICAL DOCUMENT - THE TERM& CONDITIONS (AANEXURE—A) DULY SIGNED / WITH SEAL, BANK DETAILS IN ANNEXURE -B, COPY OF VALID FIRM PAN & GSTN REGISTRATION AND COPY OF CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGISTRATION,

SEALED ENVELOPE 'B' FINANCIAL DOCUMENT – ANNEXURE -C, DULY SIGNED / WITH SEAL

SEALED MASTER ENVELOPE: - SEALED ENVELOPE 'A' AND 'B' SUBMITTED IN A SEALED MASTER ENVELOPE ON OR BEFORE 03.08.2026 1500HRS.

FOR ANY CLARIFICATION REQUIRED, PLEASE CONTACT THE MOBILE NO 8130912668



(K.C. MEENA)

AGM (FINANCE)

FOR DIRECTOR, IAA, NIAMAR SOCIETY

TERMS AND CONDITIONS

1. NIQ DETAILS AND QUOTATION FORMAT AVAILABLE ON IAA &AAI WEBSITE CONTAINED IN ATTACHED PDF FILE.
- 2 THE RATES/FEES QUOTED IN ANNEXURE-C SHALL BE INCLUSIVE OF ALL EXPENDITURE AND ALL APPLICABLE TAXES. HOWEVER, GST SHALL BE PAYABLE EXTRA, AS APPLICABLE.
3. CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM HAVING PROFESSIONAL EXPERIENCE OF AT LEAST 10 YEARS AND A DELHI BASED.
- 4 THE CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM SHOULD HAVE VALID PAN NUMBER AND FIRM GSTN REGISTRATION.
- 5 (i) **SEALED ENVELOPE 'A' TECHNICAL DOUCMENT:** - ANNEXURE-A IS TO BE SUBMITTED SEALED ENVELOPE 'A' ALONG WITH ANNEXURE-B AND COPY OF FIRM VALID PAN & GSTN REGISTRATION AND COPY OF CHARTERED ACCOUNTANTS FIRM REGISTRATION.
- 5 (ii) **SEALED ENVELOPE 'B' FINANCIAL DOCUMENTS:** - ANNEXURE-C TO BE SUBMITTED IN SEALED ENVELOPE 'B'.
- 5 (iii) **SEALED MASTER ENVELOPE:** - ENVELOPE 'A' AND ENVELOPE 'B' SUBIMMTED IN MASTER ENVELOPE.
- 6 QUOTATIONS RECEIVED THROUGH FAX / EMAIL WILL ALSO NOT BE CONSIDERED.
- 7 **QUOTATIONS RECEIVED AFTER 1500 HOURS BY 03.08.2026 WILL NOT BE CONSIDERED.**
- 8 THE QUOTATION CONTAINING ANY CONDITIONAL OFFER WILL NOT BE CONSIDERED. THE METHODOGY FOR SELECTION OF THE SUCCESSFUL C.A. FIRM IS EXPLICITLY STATED AS BEING BASED SOLELY ON THE LOWEST FINANCIAL QUOTATION (L1) FINALIZED ON THE QUOTED RATE/FEES.
- 09 QUOTATIONS MAY BE SUBMITTED STRICTLY AS PER ABOVE TERMS AND CONDITIONS.
- 10 QUOTATIONS NOT RECEIVED AS PER ABOVE CONDITIONS AND FORMAT IS LIABLE TO BE DISQUALIFIED.
- 11 IAA RESERVING THE AUTHORITY'S RIGHT TO REJECT ANY QUOTATION WITHOUT ASSIGNING REASONS AND MANDATING THAT THE BIDDER MUST SIGN ALL ALTERATIONS/CORRECTIONS IN FULL.
- 12 THE WORK SHOULD BE COMPLETE WITHIN THE 30 DAYS OF THE AWARD OF WORK. THE FIRM FAILURE TO EXECUTE THE WORK WITHIN THE STUPULATED TIMELINE AND NO JUSTIFIABLE REASON ARE FOUND FOR THE DELAY, SHALL BE LIABLE TO PAY THE COMPENSATION FOR DELAY AT THE RATE OF ONE PERCENT OF THE TOTAL VALUE OF WORK ORDER PER WEEK OF DELAY SUBJECT TO MAXIMUM OF Rs. 10000/- (RUPEES TEN THOUSAND ONLY) IN CASE THE ABOVE WORK IS DECLARED URGENT/EMERGENT. THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR DELAY OR WAIVING OF COMPENSATION FOR DELAY IN CASE OF JUSTIFIED REASONS SHALL BE DECIDED AT THE DISCRETION OF DIRECTOR, IAA AND SAME SHALL BE BINDING ON FIRM.
- 13 DISCREPANCY IN RATES: DISCREPANCY IN RATES QUOTED WORDS AND FIGURE, RATES QUOTED IN WORDS SHALL PREVAIL OVER FIGURES.
- 14 THE QUOTATION MUST BE RESTRUCTURED INTO A TWO-DOUCMENT SYSTEM (ENVELOPE 'A' TECHNICAL DOCUMENT AND ENVELOPE 'B' FINANCIAL DOCUMENT) ENCLOSED IN A 'MASER ENVELOPE'. FINANCIAL DOCUMENT SHALL ONLY BE OPENED FOR TECHNICALLY QUALIFIED FIRMS. TECHNICAL DOCUMENT- ENVELOPE 'A' OPEN ON 04.08.206 11.00 AM OR AFTER APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY.
- 15 **PAYMENT TERMS:** - AFTER SATISFACTORY COMPLETION OF WORK AND SUBMISSION OF TAX INVOICE, TDS SHALL BE DEDUCTED AS APPLICABLE ON PAYMENT.**NO ADVANCE PAYMENT SHALL BE MADE**

ACCEPTANCE: -I / WE HEREBY ACCEPT THE ABOVE TERMS & CONDITIONS.

SIGNATURE WITH OFFICAL SEAL

ANNEXURE -B

ELECTRONIC TRANSFER MANDATE

DETAILS OF THE BANKERS, ACCOUNT NO. IN RESPECT OF
SERVICE PROVIDER FOR RELEASING PAYMENT THROUGHT
RTGS/NEFT.

S.NO	PARTICULARS	DETAILS
01	NAME OF THE VENDOR	
02	PAN NO.	
03	NAME OF THE BANK/ BRANCH	
04	COMPLETE ADDRESS OF THE BANK	
05	NATURE OF ACCOUNT	
06	CORE BANKING ACCOUNT NO.	
07	IFSC CODE OF THE BANK	

SIGNATURE WITH OFFICAL SEAL

QUOTATION DATE.....

ANNEXURE-C

QUOTATION - FINANCIALS

To

Dated

Indian Aviation Academy
National Institute of Aviation Management and
Research society (NIAMAR)
NIAMAR Society Campus, Behind Spinal injury Centre
Near Basant Kunj, Nangal Dewat Road
New Delhi 110070

DEAR SIR / MADAM,

Sub: **QUOTATION** FOR "AUDIT OF ACCOUNTS AND SUBMISSION OF ITR, A.Y. 2026-2027, GST AUDIT & SUBMISSION GSTR-9 AND GSTR-9C F.Y. 2025-2026 FOR NATIONAL INSTITUTE OF AVIATION MANAGEMENT AND RESEARCH SOCIETY (INDIAN AVIATION ACADEMY) HAVING GSTIN 07AABAN1657L1ZE (DELHI)/ PAN AABAN1657L (DELHI)"

S. No.	Particulars	Professional Fees (INR) Rs.
1	Auditing of Accounts for the F.Y. 2025-2026 and submission of ITR for the A.Y. 2026-2027 of IAA on Timely Account Audit with Tax Audit (As per Income Tax Act) ● Review of compliance with income tax laws, including sections relating to deductions, disallowances, and reporting of specified transactions. ● Detailed analysis of all clauses of Form 10B/3CD, including loans, payments, depreciation, and transfer pricing (if applicable). ● Verification of turnover, GST reconciliation, TDS compliance, and key expense heads. ● Filing of Form 3CA/3CB and Form 10B/3CD electronically on the Income Tax Portal. ● Review of advance tax payments and computation of interest under sections 234A/B/C. ● Submission of Audited Financial Statement & Schedules and Audit report and Data files ● any other relevant work as required.	Rs.
2	GST Auditing and Submission of GSTR-9 and GSTR-9C for the F.Y. 2025-2026 of IAA on Timely ● The Examination of records, returns and other document maintained/ furnished by IAA under the GST Acts and the rules made there under or under any other law for the time being in force to verify the correctness of turnover declared, Tax paid and to assess the compliance with the provision of the GST Acts or the rules made there under. ● Verification of GST Return and Compliance Documents. ● Review of Input Tax Credit (ITC) Utilization. ● Examination of GST Refunds, if applicable. ● Preparation of GST Audit Report as per GST Laws and Regulations ● Submission of Audited Data and Audit report with GSTR-9 and GSTR-9C ● Detailed Analysis of GST Ledger and Accounts, preparation summary of transactions/Aggregate Turnover in respect of all section and consolidated. ● Compiling, consolidating, Preparing, Filling and Certifying of the Audit Report under GST Regime in form GSTR-9 and GSTR-9C which covers the following reconciliation of the figures and certifying the same to be true and correct accounting to the record and free of any material misstatement. ● any other relevant work as required.	(Rupees: -

Note: - Rate are inclusive of all expenditure and all applicable Taxes (excluding applicable GST)

Payment Terms: - Payment will be made after satisfactory Completion of the above work upon submitted of tax Invoice. TDS will be deducted from the payment as applicable.

SIGNATURE WITH OFFICAL SEAL

NAME:

TEL/MOBILE NO:

दर आमंत्रण सूचना (एनआईक्यू)

विषय: "राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान सोसायटी (भारतीय विमानन अकादमी) जिसका जीएसटीआईएन 07AABAN1657L1ZE (दिल्ली) / पैन AABAN1657L (दिल्ली) है, के लिए खातों का ऑडिट (लेखापरीक्षा) और आईटीआर (आयकर रिटर्न) जमा करना, निर्धारण वर्ष 2026-2027, जीएसटी ऑडिट और GSTR-9 तथा GSTR-9C प्रस्तुत करना वित्तीय वर्ष 2025-2026" के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित है।

1. निदेशक, राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान सोसायटी (भारतीय विमानन अकादमी) की ओर से सहायक महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म से "राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान सोसायटी (भारतीय विमानन अकादमी) जिसका जीएसटीआईएन 07AABAN1657L1ZE (दिल्ली) / पैन AABAN1657L (दिल्ली) है, के लिए खातों का ऑडिट और आईटीआर जमा करना, निर्धारण वर्ष 2026-2027, जीएसटी ऑडिट और GSTR-9 तथा GSTR-9C प्रस्तुत करना वित्तीय वर्ष 2025-2026" के लिए मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कोटेशन के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान सोसायटी (भारतीय विमानन अकादमी) जिसका जीएसटीआईएन 07AABAN1657L1ZE (दिल्ली) / पैन AABAN1657L (दिल्ली) है, के लिए खातों का ऑडिट और आईटीआर जमा करना, निर्धारण वर्ष 2026-2027, जीएसटी ऑडिट और GSTR-9 तथा GSTR-9C प्रस्तुत करना वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु कोटेशन" तथा फर्म का नाम और पता अंकित होना चाहिए।

3. कोटेशन, भारतीय विमानन अकादमी, राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान सोसायटी (नियामक), नियामक सोसायटी परिसर, स्पाइनल इंजरी सेंटर के पीछे, वसंत कुंज के पास, नांगल देवत रोड, नई दिल्ली- 110070 को संबोधित करते हुए, रिसेप्शन में रखे कोटेशन बॉक्स में दिनांक 03.08.2026 को 1500 बजे तक डाले जा सकते हैं।


4. कोटेशन निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाए: - कोटेशन में "लिफाफा 'ए', लिफाफा 'बी' और 'मास्टर लिफाफा'" का उल्लेख होना चाहिए।

मुहरबंद लिफाफा 'ए': तकनीकी दस्तावेज़ - नियम और शर्तें (अनुलग्नक-ए) विधिवत हस्ताक्षरित / मुहर सहित, अनुलग्नक-बी में बैंक विवरण, वैध फर्म पैन (PAN) और जीएसटीएन (GSTN) पंजीकरण की प्रति तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण की प्रति।

मुहरबंद लिफाफा 'बी': वित्तीय दस्तावेज़ - अनुलग्नक-सी, विधिवत हस्ताक्षरित / मुहर सहित।

मुहरबंद मास्टर लिफाफा: - मुहरबंद लिफाफा 'ए' और 'बी' को एक मुहरबंद मास्टर लिफाफे में डालकर दिनांक 03.08.2026 को 1500 बजे तक या उससे पहले जमा करें।

किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर, कृपया मोबाइल नंबर 8130912668 पर संपर्क करें।


(के.सी. मीना)

सहायक महाप्रबंधक (वित्त)

कृते निदेशक, आईएए, नियामक सोसायटी

नियम एवं शर्तें

1. एनआईक्यू विवरण और कोटेशन प्रारूप आईएए और एएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध संलग्न पीडीएफ फाइल में निहित है।
2. अनुलग्नक-सी में उद्धृत दरें/शुल्क सभी व्यय और सभी लागू करें सहित होंगे। हालांकि, लागू होने पर जीएसटी का भुगतान अतिरिक्त किया जाएगा।
3. कम से कम 10 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव रखने वाली और दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म।
4. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म के पास वैध पैन नंबर और फर्म का जीएसटीएन (GSTN) पंजीकरण होना चाहिए।
- 5 (i) **मुहरबंद लिफाफा 'ए' तकनीकी दस्तावेज़:** - अनुलग्नक-ए को अनुलग्नक-बी और फर्म के वैध पैन एवं जीएसटीएन पंजीकरण की प्रति तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म पंजीकरण की प्रति के साथ मुहरबंद लिफाफे 'ए' में प्रस्तुत किया जाना है।
- 5 (ii) **मुहरबंद लिफाफा 'बी' वित्तीय दस्तावेज़:** - अनुलग्नक-सी को मुहरबंद लिफाफे 'बी' में प्रस्तुत किया जाना है।
- 5 (iii) **मुहरबंद मास्टर लिफाफा:** - लिफाफा 'ए' और लिफाफा 'बी' को मास्टर लिफाफे में डालकर प्रस्तुत किया जाना है।
6. फैक्स / ईमेल के माध्यम से प्राप्त कोटेशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
7. दिनांक 03.08.2026 को 1500 बजे के बाद प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. किसी भी सशर्त प्रस्ताव वाले कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। सफल सी.ए. (C.A.) फर्म के चयन की कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से बताई गई है कि यह पूरी तरह से सबसे कम वित्तीय कोटेशन (L1) पर आधारित होगी और उद्धृत दर/शुल्क पर अंतिम रूप दिया जाएगा।
09. कोटेशन सख्ती से उपरोक्त नियमों और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।
10. उपरोक्त शर्तों और प्रारूप के अनुसार प्राप्त न होने वाले कोटेशन अयोग्य घोषित किए जाने के पात्र हैं।
11. आईएए के पास बिना कारण बताए किसी भी कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और यह अनिवार्य है कि बोली लगाने वाले को सभी परिवर्तनों/सुधारों पर पूर्ण हस्ताक्षर करने होंगे।
12. कार्य, कार्य आवंटन के 30 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य को निष्पादित करने में फर्म की विफलता और देरी के लिए कोई उचित कारण न पाए जाने पर, यदि उपरोक्त कार्य को तत्काल/आपातकालीन घोषित किया जाता है, तो फर्म को प्रति सप्ताह की देरी के लिए कार्य आदेश के कुल मूल्य के एक प्रतिशत की दर से देरी के लिए मुआवजा देना होगा, जो अधिकतम 10000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) के अधीन होगा। देरी के लिए मुआवजे की राशि या उचित कारणों के मामले में देरी के लिए मुआवजे की छूट का निर्णय निदेशक, आईएए के विवेक पर तय किया जाएगा और यह फर्म के लिए बाध्यकारी होगा।
13. दरों में विसंगति: उद्धृत शब्दों और अंकों की दरों में विसंगति होने पर, शब्दों में उद्धृत दरें अंकों पर मान्य होंगी।
14. कोटेशन को दो-दस्तावेज़ प्रणाली (लिफाफा 'ए' तकनीकी दस्तावेज़ और लिफाफा 'बी' वित्तीय दस्तावेज़) में पुनर्गठित किया जाना चाहिए और एक 'मास्टर लिफाफे' में संलग्न किया जाना चाहिए। वित्तीय दस्तावेज़ केवल तकनीकी रूप से योग्य फर्मों के लिए ही खोला जाएगा। तकनीकी दस्तावेज़- लिफाफा 'ए' दिनांक 04.08.2026 को सुबह 11:00 बजे या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद खोला जाएगा।
15. **भुगतान की शर्तें:** - कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने और कर चालान जमा करने के बाद, भुगतान पर लागू होने वाले टीडीएस (TDS) की कटौती की जाएगी। **कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।**

स्वीकृति: - मैं / हम एतद्वारा उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं।

आधिकारिक मुहर के साथ हस्ताक्षर

किसी विसंगति/विवाद की स्थिति में पाठ का अंग्रेजी रूप मान्य होगा

इलेक्ट्रॉनिक अंतरण अधिदेश

आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान जारी करने के लिए सेवा प्रदाता के संबंध में बैंकर्स, खाता संख्या का विवरण।

क्र.सं.	विवरण	विवरण
01	वेंडर का नाम	
02	पैन नं.	
03	बैंक/शाखा का नाम	
04	बैंक का पूरा पता	
05	खाते की प्रकृति	
06	कोर बैंकिंग खाता संख्या	
07	बैंक का आईएफएससी (IFSC) कोड	

आधिकारिक मुहर के साथ हस्ताक्षर

कोटेशन - वित्तीय

सेवा में,

दिनांक

भारतीय विमानन अकादमी

राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और

अनुसंधान संस्थान सोसायटी (नियामर)

नियामर सोसायटी परिसर, स्पाइनल इंजरी सेंटर के पीछे

वसंत कुंज के पास, नांगल देवत रोड

नई दिल्ली 110070

महोदय / महोदया,

विषय: "राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान सोसायटी (भारतीय विमानन अकादमी) जिसका जीएसटीआईएन 07AABAN1657L1ZE (दिल्ली) / पैन AABAN1657L (दिल्ली) है, के लिए खातों का ऑडिट और आईटीआर जमा करना, निर्धारण वर्ष 2026-2027, जीएसटी ऑडिट और GSTR-9 तथा GSTR-9C प्रस्तुत करना वित्तीय वर्ष 2025-2026" हेतु कोटेशन।

क्र.सं.	विवरण	व्यावसायिक शुल्क (INR) रुपये
1	आईए के वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए खातों का समय पर ऑडिट करना और निर्धारण वर्ष 2026-2027 के लिए आईटीआर प्रस्तुत करना टैक्स ऑडिट के साथ खातों का ऑडिट (आयकर अधिनियम के अनुसार) - आयकर कानूनों के अनुपालन की समीक्षा, जिसमें कटौती, अस्वीकृति और निर्दिष्ट लेनदेन की रिपोर्टिंग से संबंधित धाराएं शामिल हैं। - फॉर्म 10B/3CD के सभी खंडों का विस्तृत विश्लेषण, जिसमें ऋण, भुगतान, मूल्यहास और स्थानांतरण मूल्य निर्धारण (यदि लागू हो) शामिल हैं। - टर्नओवर, जीएसटी समाधान, टीडीएस अनुपालन और प्रमुख व्यय शीर्षों का सत्यापन। - आयकर पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म 3CA/3CB और फॉर्म 10B/3CD दाखिल करना। - अग्रिम कर भुगतान की समीक्षा और धारा 234A/B/C के तहत ब्याज की गणना। - ऑडिटेड वित्तीय विवरण और अनुसूचियां तथा ऑडिट रिपोर्ट और डेटा फ़ाइलें प्रस्तुत करना - आवश्यकतानुसार कोई अन्य प्रासंगिक कार्य।	रुपये
2	आईए के वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए समय पर जीएसटी ऑडिट करना और GSTR-9 तथा GSTR-9C प्रस्तुत करना - घोषित टर्नओवर और भुगतान किए गए कर की शुद्धता को सत्यापित करने तथा जीएसटी अधिनियमों या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन का आकलन करने के लिए आईए द्वारा जीएसटी अधिनियमों और उसके तहत बनाए गए नियमों या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत रखे गए / प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड, रिटर्न और अन्य दस्तावेजों की जांच। - जीएसटी रिटर्न और अनुपालन दस्तावेजों का सत्यापन। - इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) उपयोग की समीक्षा। - यदि लागू हो तो जीएसटी रिफंड की जांच।	(रुपये: -

• जीएसटी कानूनों और विनियमों के अनुसार जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना। • GSTR-9 और GSTR-9C के साथ ऑडिटेड डेटा और ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना। • जीएसटी लेजर और खातों का विस्तृत विश्लेषण, सभी अनुभागों और समेकित के संबंध में लेनदेन/कुल टर्नओवर का सारांश तैयार करना। • जीएसटी व्यवस्था के तहत फॉर्म GSTR-9 और GSTR-9C में ऑडिट रिपोर्ट का संकलन, समेकन, तैयारी, दाखिल करना और प्रमाणित करना, जिसमें आंकड़ों के निम्नलिखित समाधान शामिल हैं और यह प्रमाणित करना कि यह रिकॉर्ड के लिए सही और सटीक लेखांकन है और किसी भी सामग्री गलत विवरण से मुक्त है। • आवश्यकतानुसार कोई अन्य प्रासंगिक कार्य।	
---	--

नोट: - दर में सभी व्यय और सभी लागू कर (लागू जीएसटी को छोड़कर) शामिल हैं।

भुगतान की शर्तें: - उपरोक्त कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद कर चालान जमा करने पर भुगतान किया जाएगा। लागू होने वाले टीडीएस (TDS) की भुगतान से कटौती की जाएगी।

आधिकारिक मुहर के साथ हस्ताक्षर

नाम:

दूरभाष/मोबाइल नं.: